

Class & Subject-wise Chapter Summary

Class 6th to 12th

**Total Chapters Covered : 1284**

Class	Subject	Sub Subject	PDF Format	Word Format	
Class 6	English	Comprehension And Composition Chapters	11	11	
		Grammar	20	20	
		Litreture	28	28	
	English Total			59	59
	Hindi	सारांश (Vasant) व्याकरण		17	17
				24	24
	Hindi Total			41	41
	Maths	Maths		14	14
	Maths Total			14	14
	Science	Science		16	16
	Science Total			16	16
	Social Science	Civics Geography History		9	9
				8	8
			12	12	
Social Science Total			29	29	
<b>Class 6 Total</b>			<b>159</b>	<b>159</b>	
Class 7	English	Comprehension And Composition Chapters	11	11	
		Grammar	20	20	
		Litreture	29	29	
	English Total			60	60
	Hindi	सारांश (Vasant) व्याकरण		20	20
				25	25
	Hindi Total			45	45
	Maths	Maths		15	15
	Maths Total			15	15
	Science	Science		18	18
	Science Total			18	18
	Social Science	Civics Geography History		10	10
				9	9
			10	10	
Social Science Total			29	29	
<b>Class 7 Total</b>			<b>167</b>	<b>167</b>	
Class 8	English	Grammar	26	26	
		Litreture	28	28	
	English Total			54	54
	Hindi	सारांश (Vasant) व्याकरण		18	18
				25	25
Hindi Total			43	43	

	<b>Maths</b>	<b>Maths</b>	16	16
	<b>Maths Total</b>		<b>16</b>	<b>16</b>
	<b>Science</b>	<b>Science</b>	18	18
	<b>Science Total</b>		<b>18</b>	<b>18</b>
	<b>Social Science</b>	<b>Civics</b>	10	10
		<b>Geography</b>	6	6
		<b>History</b>	12	12
	<b>Social Science Total</b>		<b>28</b>	<b>28</b>
<b>Class 8 Total</b>			<b>159</b>	<b>159</b>

<b>Class 9</b>	<b>English</b>	<b>Grammer</b>	44	44
		<b>Litreture</b>	31	31
	<b>English Total</b>		<b>75</b>	<b>75</b>
	<b>Hindi</b>	<b>सारांश</b>	46	46
		<b>व्याकरण</b>	21	21
	<b>Hindi Total</b>		<b>67</b>	<b>67</b>
	<b>Maths</b>	<b>Maths</b>	15	15
	<b>Maths Total</b>		<b>15</b>	<b>15</b>
	<b>Science</b>	<b>Biology</b>	6	6
		<b>Chemistry</b>	4	4
		<b>Physics</b>	5	5
	<b>Science Total</b>		<b>15</b>	<b>15</b>
	<b>Social Science</b>	<b>Civics</b>	6	6
	<b>Economices</b>	4	4	
	<b>Geography</b>	6	6	
	<b>History</b>	5	5	
<b>Social Science Total</b>		<b>21</b>	<b>21</b>	
<b>Class 9 Total</b>			<b>193</b>	<b>193</b>

<b>Class 10</b>	<b>English</b>	<b>Grammer</b>	44	44
		<b>Litreture</b>	32	32
	<b>English Total</b>		<b>76</b>	<b>76</b>
	<b>Hindi</b>	<b>सारांश</b>	42	42
		<b>व्याकरण</b>	21	21
	<b>Hindi Total</b>		<b>63</b>	<b>63</b>
	<b>Maths</b>	<b>Maths</b>	15	15
	<b>Maths Total</b>		<b>15</b>	<b>15</b>
	<b>Science</b>	<b>Biology</b>	6	6
		<b>Chemistry</b>	5	5
		<b>Physics</b>	5	5
	<b>Science Total</b>		<b>16</b>	<b>16</b>
	<b>Social Science</b>	<b>Civics</b>	8	8
	<b>Economices</b>	5	5	
	<b>Geography</b>	7	7	
	<b>History</b>	5	5	
<b>Social Science Total</b>		<b>25</b>	<b>25</b>	

<b>Class 10 Total</b>			<b>195</b>	<b>195</b>
<b>Class 11</b>	<b>English</b>	Summary	21	21
		Reading	2	2
		Writing	21	21
		Grammar	6	6
	English Total		50	50
	<b>Hindi</b>	सारांश	23	23
		व्याकरण	19	19
	Hindi Total		42	42
	<b>Science</b>	Mathematics	16	16
		Biology	22	22
		Chemistry	14	14
		Physics	15	15
		Physical Education	10	10
	Science Total		77	77
	<b>Commerce</b>	Accountancy	11	11
		Business Studies	11	11
		Economics	14	14
		Entrepreneurship	7	7
	Commerce Total		43	43
<b>Class 11 Total</b>			<b>212</b>	<b>212</b>
<b>Class 12</b>	<b>English</b>	Summary	22	22
		Reading	2	2
		Writing	21	21
	English Total		45	45
	<b>Hindi</b>	सारांश	22	22
		व्याकरण	19	19
	Hindi Total		41	41
	<b>Science</b>	Mathematics	13	13
		Biology	16	16
		Chemistry	16	16
		Physics	14	14
		Physical Education	9	9
	Science Total		68	68
	<b>Commerce</b>	Accountancy	11	11
		Business Studies	12	12
		Economics	16	16
		Entrepreneurship	6	6
	Commerce Total		45	45
<b>Class 12 Total</b>			<b>199</b>	<b>199</b>
<b>Grand Total</b>			<b>1284</b>	<b>1284</b>

**Chapter-wise Important Notes**

**Class 6th to 12th**

Total Chapters Covered : 1284

Class	Subject	Sub Subject	Chapter / Topic Name
Class 6th	English	<b>Comprehension And</b>	Dialogue Writing Diary Entry Essay Writing Formal Letter Writing Informal Letter Writing Message Writing Notice Writing Paragraph Writing Precis Writing Reading Comprehension Story Writing
		<b>Grammar</b>	Adjectives Adverbs Articles Clauses Comparison Conjunctions Direct and Indirect Speech Nouns Parts of A Sentence Parts of Speech Phrases Prepositions Pronouns Punctuations Question Tags Tenses Types of Sentences Verbs Vocabulary Voice
		<b>Honeysuckle</b> Prose	1. Who Did Patrick's Homework 2. How the Dog Found Himself a Master 3. Taro's Reward 4. An Indian – American Woman in Space Kalpana Chawala 5. A Different Kind of School 6. Who I Am 7. Fair Play 8. A Game of Chance 9. Desert Animals 10. The Banyan Tree
		Poem	1. A House, A Home 2. The Kite 3. The Quarrel 4. Beauty 5. Where Do All the Teachers Go 6. The Wonderful Words 7. Vocation 8. Whatif
		<b>A Pact with the Sun</b>	1. A Tale of Two Birds 2. The Friendly Mongoose 3. The Shepherd's Treasure

		<p>4. The Old-Clock Shop</p> <p>5. Tansen</p> <p>6. The Monkey and the Crocodile</p> <p>7. The Wonder Called Sleep</p> <p>8. A Pact with the Sun</p> <p>9. What Happened to the Reptiles</p> <p>10. A Strange Wrestling Match</p>
<b>English</b>		
<b>हिन्दी</b>	<b>सारांश (Vasant)</b>	<p>1 वह चिड़िया जो</p> <p>2 बचपन</p> <p>3 नादान दोस्त</p> <p>4 चाँद से थोड़ी सी गप्पे</p> <p>5 अक्षरों का महत्व</p> <p>6 पार नजर के</p> <p>7 साथी हाथ बढाना</p> <p>8 ऐसे ऐसे</p> <p>9 टिकट अलबम</p> <p>10 झाँसी की रानी</p> <p>11 जो देखकर भी नहीं देखते</p> <p>12 संसार पुस्तक है</p> <p>13 मैं सबसे छोटी होऊँ</p> <p>14 लोकगीत</p> <p>15 नौकर</p> <p>16 वन के मार्ग में</p> <p>17 साँस-साँस में बाँस</p>
	<b>व्याकरण</b>	<p>भाषा, लिपि तथा व्याकरण</p> <p>वर्ण-विचार</p> <p>संधि</p> <p>शब्द-विचार</p> <p>संज्ञा</p> <p>वचन</p> <p>कारक के भेद</p> <p>सर्वनाम</p> <p>विशेषण</p> <p>क्रिया</p> <p>काल</p> <p>वाच्य</p> <p>उपसर्ग</p> <p>प्रत्यय</p> <p>समास</p> <p>अविकारी शब्द</p> <p>वाक्य</p> <p>क्रिया-विशेषण</p> <p>सामान्य अशुद्धियाँ</p> <p>विराम चिह्न</p> <p>महावारे तथा लोकोक्तियाँ</p> <p>अनुच्छेद लेखन</p> <p>पत्र लेखन</p> <p>निबंध लेखन</p>
<b>हिन्दी</b>		
<b>Maths</b>	<b>Maths</b>	<p>Chapter 1 Knowing Our Numbers</p> <p>Chapter 2 Whole Numbers</p> <p>Chapter 3 Playing With Numbers</p> <p>Chapter 4 Basic Geometrical Ideas</p> <p>Chapter 5 Understanding Elementary Shapes</p> <p>Chapter 6 Integers</p> <p>Chapter 7 Fractions</p> <p>Chapter 8 Decimals</p> <p>Chapter 9 Data Handling</p> <p>Chapter 10 Mensuration</p>

		Chapter 11 Algebra Chapter 12 Ratio and Proportion Chapter 13 Symmetry Chapter 14 Practical Geometry
<b>Maths</b>		
<b>Science</b>	<b>Science</b>	Chapter 1 Food Where Does It Come From Chapter 2 Components of Food Chapter 3 Fibre to Fabric Chapter 4 Sorting Materials into Groups Chapter 5 Separation of Substances Chapter 6 Changes Around Us Chapter 7 Getting to Know Plants Chapter 8 Body Movements Chapter 9 Living Organisms and Surroundings Chapter 10 Motion and Measurement of Distances Chapter 11 Light Shadows and Reflections Chapter 12 Electricity and Circuits Chapter 13 Fun with Magnets Chapter 14 Water Chapter 15 Air Around Us Chapter 16 Garbage In Garbage Out
<b>Science</b>		
<b>Social Science</b>	<b>Civics</b>	Chapter 1 Understanding Diversity Chapter 2 Diversity and Discrimination Chapter 3 What Is Government Chapter 4 Key Elements of a Democratic Government Chapter 5 Panchayati Raj Chapter 6 Rural Administration Chapter 7 Urban Administration Chapter 8 Rural Livelihoods Chapter 9 Urban Livelihoods
	<b>Geography</b>	Chapter 1 The Earth in the Solar System Chapter 2 Globe Latitudes and Longitudes Chapter 3 Motions of the Earth Chapter 4 Maps Chapter 5 Major Domains of the Earth Chapter 6 Major Landforms of the Earth Chapter 7 Our Country India Chapter 8 India Climate Vegetation and Wildlife
	<b>History</b>	Chapter 1 What Where How and When Chapter 2 On the Trail of the Earliest People Chapter 3 From Gathering to Growing Food Chapter 4 In The Earliest Cities Chapter 5 What Bones and Burials Tell Us Chapter 6 Kingdoms Kings and an Early Republic Chapter 7 New Questions and Ideas Chapter 8 Ashoka the Emperor Who Gave Up War Chapter 9 Vital Villages Thriving Towns Chapter 10 Traders Kings and Pilgrims Chapter 11 New Empires and Kingdoms Chapter 12 Buildings Paintings and Books
<b>Social Science</b>		
<b>Class 6th</b>		
<b>Class 7th</b>	<b>English</b>	<b>Comprehension And</b> Dialogue Writing Diary Entry Essay Writing Formal Letter Writing Informal Letter Writing Message Writing

		<p>Notice Writing Paragraph Writing Precis Writing Reading Comprehension Story Writing</p>
	<b>Grammar</b>	<p>Adjectives Adverbs Articles Clauses Comparison Conjunctions Direct and Indirect Speech Nouns Parts of A Sentence Parts of Speech Phrases Prepositions Pronouns Punctuations Question Tags Tenses Types of Sentences Verbs Vocabulary Voice</p>
	<b>Honeycomb</b> Prose	<p>1. Three Questions 2. A Gift of Chappals 3. Gopal and the Hilsa-fish 4. The Ashes That Made The Trees Bloom 5. Quality 6. Expert Detectives 7. The Invention of Vita-Wonk 8. Fire Friend and Foe 9. A Bicycle in Good Repair 10. The Cricket Story</p>
	Poem	<p>1. The Squirrel 2. The Rebel 3. The Shed 4. Chivy 5. Trees 6. Mystery of the Talking Fan 7. Dad and the Cat and the Tree 8. Meadow Surprises 9. Garden Snake</p>
	<b>The Alian Hand</b>	<p>1. The Tiny Teacher 2. Bringing up Kari 3. The Desert 4. The Cop and the Anthem 5. Golu Grows a Nose 6. I Want Something in a Cage 7. Chandni 8. The Bear Story 9. A Tiger in the House 10. An Alien Hand</p>
<b>English</b>		
<b>हिन्दी</b>	<b>सारांश (Vasant)</b>	<p>1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के 2 दादी माँ 3 हिमालय की बेटियां 4 कठपुतली</p>

		<p>5 मीठाईवाला  6 रक्त और हमारा शरीर  7 पापा खो गए  8 शाम एक किसान  9 चिड़िया की बच्ची  10 अपूर्व अनुभव  11 रहीम की दोहे  12 कंचा  13 एक तिनका  14 खानपान की बदलती तस्वीर  15 नीलकंठ  16 भोर और बरखा  17 वीर कवर सिंह  18 संघर्ष के कारण मैं तनकमिजाज हो गया धनराज  19 आश्रम का अनुमानित व्यय  20 विप्लव गायन</p>
	<b>व्याकरण</b>	<p>भाषा और व्याकरण  वर्ण विचार  संधि  शब्द विचार  संज्ञा  लिंग  वचन  कारक  सर्वनाम  विशेषण  क्रिया  काल  वाच्य  समुच्चयबोधक अव्यय  उपसर्ग  प्रत्यय  समास  विराम चिह्न  पर्यायवाची शब्द  विलोम शब्द  अलंकार  डायरी लेखन  पत्र लेखन  अनुच्छेद लेखन  निबंध लेखन</p>
<b>हिन्दी</b>		
<b>Maths</b>	<b>Maths</b>	<p>Chapter 1 Integers  Chapter 2 Fractions and Decimals  Chapter 3 Data Handling  Chapter 4 Simple Equations  Chapter 5 Lines and Angles  Chapter 6 The Triangle and Its Properties  Chapter 7 Congruence of Triangle  Chapter 8 Comparing Quantities  Chapter 9 Rational Numbers  Chapter 10 Practical Geometry  Chapter 11 Perimeter and Area  Chapter 12 Algebraic Expressions  Chapter 13 Exponents and Powers  Chapter 14 Symmetry  Chapter 15 Visualising Solid Shapes</p>
<b>Maths</b>		
<b>Science</b>	<b>Science</b>	<p>Chapter 1 Nutrition in Plants  Chapter 2 Nutrition in Animals</p>



			<p>Chapter 3 Fibre to Fabric</p> <p>Chapter 4 Heat</p> <p>Chapter 5 Acids Bases and Salts</p> <p>Chapter 6 Physical and Chemical Changes</p> <p>Chapter 7 Weather Climate and Adaptations of Animals to Climate</p> <p>Chapter 8 Winds Storms and Cyclones</p> <p>Chapter 9 Soil</p> <p>Chapter 10 Respiration in Organisms</p> <p>Chapter 11 Reproduction in Plants</p> <p>Chapter 12 Motion and Time</p> <p>Chapter 13 Transportation in Animals and Plants</p> <p>Chapter 14 Electric Current and its Effects</p> <p>Chapter 15 Light</p> <p>Chapter 16 Water A Precious Resource</p> <p>Chapter 17 Forests Our Lifeline</p> <p>Chapter 18 Wastewater Story</p>
	<b>Science</b>		
	<b>Social Science</b>	<b>Civics</b>	<p>Chapter 1 On Equality</p> <p>Chapter 2 Role of the Government in Health</p> <p>Chapter 3 How the State Government Works</p> <p>Chapter 4 Growing Up As Boys and Girls</p> <p>Chapter 5 Women Change the World</p> <p>Chapter 6 Understanding Media</p> <p>Chapter 7 Understanding Advertising</p> <p>Chapter 8 Markets Around Us</p> <p>Chapter 9 A Shirt in the Market</p> <p>Chapter 10 Struggles for Equality</p>
		<b>Geography</b>	<p>Chapter 1 Environment</p> <p>Chapter 2 Inside Our Earth</p> <p>Chapter 3 Our Changing Earth</p> <p>Chapter 4 Air</p> <p>Chapter 5 Water</p> <p>Chapter 6 Natural Vegetation and Wildlife</p> <p>Chapter 7 Human Environment Settlement Transport and Communication</p> <p>Chapter 8 Human Environment Interactions The Tropical and Subtropical Region</p> <p>Chapter 9 Life in the Deserts</p>
		<b>History</b>	<p>Chapter 1 Tracing Changes Through A Thousand Years</p> <p>Chapter 2 New Kings and Kingdoms</p> <p>Chapter 3 The Delhi Sultans</p> <p>Chapter 4 The Mughal Empire</p> <p>Chapter 5 Rulers and Buildings</p> <p>Chapter 6 Towns Traders and Craftspersons</p> <p>Chapter 7 Tribes Nomads and Settled Communities</p> <p>Chapter 8 Devotional Paths to the Divine</p> <p>Chapter 9 The Making of Regional Cultures</p> <p>Chapter 10 Eighteenth Century Political Formations</p>
	<b>Social Science</b>		
<b>Class 7th</b>			
<b>Class 8th</b>	<b>English</b>	<b>Grammar</b>	<p>Adjectives</p> <p>Adverbs</p> <p>Articles</p> <p>Bio Sketc</p> <p>Clauses</p> <p>Comparison</p> <p>Conjunctions</p> <p>Debate Writing</p> <p>Dialogue Writing</p> <p>Diary Entry</p> <p>Direct and Indirect Speech</p>

		<p>Email Writing  Notice Writing  Nouns  Paragraph Writing  Parts of A Sentence  Parts of Speech  Phrases  Prepositions  Pronouns  Punctuations  Question Tags  Tenses  The Interjection  Types of Sentences  Verbs</p>
	<b>Honeydew</b>	
	Prose	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Best Christmas Present in the World</li> <li>2. The Tsunami</li> <li>3. Glimpses of the Past</li> <li>4. Bepin Choudhury's Lapse of Memory</li> <li>5. The Summit Within</li> <li>6. This is Jody's Fawn</li> <li>7. A Visit to Cambridge</li> <li>8. A Short Monsoon Diary</li> <li>9. The Great Stone Face I</li> <li>10. The Great Stone Face II</li> </ol>
	Poem	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Ant and the Cricket</li> <li>2. Geography Lesson</li> <li>3. Macavity - The Mystery Cat</li> <li>4. The Last Bargain</li> <li>5. The School Boy</li> <li>6. When I set out for Lyonesse</li> <li>7. On the Grasshopper and Cricket</li> </ol>
	<b>It So Happened</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. How the Camel got his hump</li> <li>2. Children at Work</li> <li>3. The Selfish Giant</li> <li>4. The Treasure Within</li> <li>5. Princess September</li> <li>6. The Fight</li> <li>7. The Open Window</li> <li>8. Jalebis</li> <li>9. The Comet I</li> <li>10. The Comet II</li> <li>11. Ancient Education System of India</li> </ol>
<b>English</b>		
<b>हिन्दी</b>	<b>सारांश (Vasant)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 ध्वनि</li> <li>2 लाख की चड़ियाँ</li> <li>3 बस की यात्रा</li> <li>4 दीवानों की हस्ती</li> <li>5 चिट्ठियों की अन्ठी दनिया</li> <li>6 भगवान के डाकिये</li> <li>7 क्या निराश हुआ जाए</li> <li>8 यह सबसे कठिन समय नहीं</li> <li>9 कबीर की साखियाँ</li> <li>10 कामचोर</li> <li>11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा</li> <li>12 सुदामा चरित</li> <li>13 जहाँ पहिया हैं</li> <li>14 अकबरी लोटा</li> <li>15 सरदास के पद</li> </ol>

		<p>16 पानी की कहानी 17 बाज और साँप 18 टोपी</p>
	<b>व्याकरण</b>	<p>भाषा और व्याकरण वर्ण विचार शब्द विचार संज्ञा लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया वाच्य काल अविकारी शब्द संधि उपसर्ग एवं प्रत्यय समास वाक्य विचार विराम चिन्ह अलंकार महावारे एवं लोकोक्तियाँ मौखिक अभिव्यक्ति डायरी लेखन अनुच्छेद लेखन निबंध लेखन पत्र लेखन</p>
<b>हिन्दी</b> <b>Maths</b>	<b>Maths</b>	<p>Chapter 1 Rational Numbers Chapter 2 Linear Equations in One Variable Chapter 3 Understanding Quadrilaterals Chapter 4 Practical Geometry Chapter 5 Data Handling Chapter 6 Squares and Square Roots Chapter 7 Cubes and Cube Roots Chapter 8 Comparing Quantities Chapter 9 Algebraic Expressions and Identities Chapter 10 Visualising Solid Shapes Chapter 11 Mensuration Chapter 12 Exponents and Powers Chapter 13 Direct and Inverse Proportions Chapter 14 Factorisation Chapter 15 Introduction to Graphs Chapter 16 Playing With Numbers</p>
<b>Maths</b> <b>Science</b>	<b>Science</b>	<p>Chapter 1 Some Natural Phenomena Chapter 2 Micro Organisms Friend Or Foe Chapter 3 Chemical Effects of Electric Current Chapter 4 Force and Pressure Chapter 5 Coal and Petroleum Chapter 6 Reproduction in Animals Chapter 7 Light Chapter 8 Reaching the Age of Adolescence Chapter 9 Stars and the Solar System Chapter 10 Pollution of Air and Water Chapter 11 Materials Metals and Non Metals Chapter 12 Conservation of Plants and Animals Chapter 13 Friction Chapter 14 Crop Production and Management</p>

			Chapter 15 Sound Chapter 16 Combustion and Flame Chapter 17 Synthetic Fibres and Plastics Chapter 18 Structure and Functions
<b>Science</b>			
<b>Social Science</b>	<b>Civics</b>		Chapter 1 The Indian Constitution Chapter 2 Understanding Laws Chapter 3 Understanding Marginalisation Chapter 4 Law and Social Justice Chapter 5 Understanding Secularism Chapter 6 Judiciary Chapter 7 Confronting Marginalisation Chapter 8 Why Do We Need A Parliament Chapter 9 Understanding Our Criminal Justice System Chapter 10 Public Facilities
	<b>Geography</b>		Chapter 1 Resources Chapter 2 Agriculture Chapter 3 Land Soil Water Natural Vegetation and Wildlife Resources Chapter 4 Human Resources Chapter 5 Mineral and Power Resources Chapter 6 Industries
	<b>History</b>		Chapter 1 How When and Where Chapter 2 Tribals Dikus and the Vision of a Golden Age Chapter 3 India After Independence Chapter 4 Weavers Iron Smelters and Factory Owners Chapter 5 From Trade to Territory The Company Establishes Power Chapter 6 When People Rebel 1857 and After Chapter 7 The Changing World of Visual Arts Chapter 8 Women Caste and Reform Chapter 9 Ruling The Countryside Chapter 10 Colonialism and the City The Story of an Imperial Capital Chapter 11 Civilising the Native Educating the Nation Chapter 12 The Making of the National Movement
<b>Social Science</b>			
<b>Class 8th</b>			

<b>Class 9th</b>	<b>English</b>	<b>Grammer</b>	Active and Passive Voice Article Writing Avoiding Repetition Collocation Comparison Conditionals Connectors Debate Writing Determiners Dialogue Writiing Diary Entry Direct and Indirect Speech Email Writing Essay Writing Figures of Speech Finites Non finites Participles Formal Letter Writing Homophones and Homonyms Idioms and Phrases Informal Letter Writing Message Writing Modals Nominalisation Notice Writing
------------------	----------------	----------------	--

		<p>Paragraph Writing  Parts of Speech  Phrases and Clauses  Precis Writing  Prefixes and Suffixes  Prepositions  Question Formation  Reading Comprehension  Relatives  Report Writing  Speech Writing  Story Writing  Subject Verb Agreement  Synonyms and Antonyms  Synthesis of Sentences  Tenses  Transformation of Sentences  Types of sentences Form  Types of sentences Meaning  Word forms</p>
	<p><b>Summary(Behive)</b>  Poetry</p>	<p>The Road Not Taken  Wind  Rain On The Roof  The Lake Isle Of Innisfree  A Legend of the Northland  No Men Are Foreign  The Duck and the Kangaroo  On Killing A Tree  The Snake Trying  A Slumber Did My Spirit Seal</p>
	<p>Prose</p>	<p>The Fun They Had  The Sound Of Music - Evelyn Glennie  The Little Girl  A Truly Beautiful Mind  The Snake And The Mirror  My Childhood  Packing  Reach For The Top  The Bond Of Love  Kathmandu  If I Were You</p>
	<p><b>Moments</b></p>	<p>The Lost Child  The Adventures Of Toto  Iswaran The Storyteller  In The Kingdom Of Fools  The Happy Prince  Weathering The Storm In Ersama  The Last Leaf  A House Is Not A Home  The Accidental Tourist  The Beggar</p>
<p><b>English</b></p>		
<p><b>हिन्दी</b></p>	<p><b>क़ि़तिज भाग 1</b>  गदय – खंड</p>	<p>1 दो बैलों की कथा  2 लहासा की ओर  3 उपभोक्तावाद की संस्कृति  4 साँवले सपनों की याद  5 नाना साहब की पत्नी देवी मैना को भस्म कर दिया गया  6 प्रेमचंद के फटे जूते  7 मेरे बचपन के दिन  8 एक कत्ता और एक मैना</p>

	काव्य – खंड	7 मेरे बचपन के दिन 8 एक कृता और एक मैना 9 साखियाँ एवं सबद 10 वाख 11 सवैये 12 कैदी और कोकिला 13 ग्राम श्री 14 चंद्र गहना से लौटती बेर 15 मेघ आए 16 यमराज की दिशा 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं
	कृतिका भाग 1	1 इस जल प्रलय में 2 मेरे संग की औरतें 3 रीढ़ की हड्डी 4 माटी वाली 5 किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया
	स्पर्श भाग 1 गदय – खंड	1 धूल 2 दःख का अधिकार 3 एवरेस्ट : मेरी शिखर यात्रा 4 तुम कब जाओगे, अतिथि 5 वैज्ञानिक चेतना के वाहक : चन्द्र शेखर वेंकट रामन 6 कीचड़ का काव्य 7 धर्म की आड़ 8 शक्र तारे के समान काव्य – खंड 9 अब कैसे छूटे राम नाम ... ऐसी लाल तज़ बिन ... 10 दोहे 11 आदमी नामा 12 एक फल की चाह 13 गीत – अगीत 14 अग्नि पथ 15 नए इलाके में ... खशब रचते हैं हाथ
	संचयन भाग 1	1 गिल्ल 2 स्मृति 3 कल्ल कम्हार की उनाकोटी 4 मेरा छोटा-सा निजी पुस्तकालय 5 हामिद खाँ 6 दिये जल उठे
	व्याकरण	काल क्रिया प्रत्यय उपसर्ग अलंकार महावारे विराम चिह्न अव्यय वाक्य विशेषण तत्सम-तदभव शब्द व्याख्या शदध वर्तनी समास वाच्य वचन पदबंध रस लिंग विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द
हिन्दी		

<b>Maths</b>	<b>Maths</b>	Chapter 1 Number System Chapter 2 Polynomials Chapter 3 Coordinate Geometry Chapter 4 Linear Equations in Two Variables Chapter 5 Introduction to Euclid's Geometry Chapter 6 Lines and Angles Chapter 7 Triangles Chapter 8 Quadrilaterals Chapter 9 Areas of Parallelograms and Triangles Chapter 10 Circles Chapter 11 Geometric Constructions Chapter 12 Heron's Formula Chapter 13 Surface Areas and Volumes Chapter 14 Statistics Chapter 15 Probability
<b>Maths</b>		
<b>Science</b>	<b>Biology</b>	Chapter 1 The Fundamental Unit of Life Chapter 2 Tissues Chapter 3 Diversity in Living Organisms Chapter 4 Why Do We Fall Ill Chapter 5 Natural Resources Chapter 6 Improvement in Food Resources
	<b>Chemistry</b>	Chapter 1 Matter in Our Surroundings Chapter 2 Is Matter Around Us Pure Chapter 3 Atoms and Molecules Chapter 4 Structure of the Atom
	<b>Physics</b>	Chapter 1 Motion Chapter 2 Force and Laws of Motion Chapter 3 Gravitation converted Chapter 4 Work and Energy converted Chapter 5 Sound converted
<b>Science</b>		
<b>Social Science</b>	<b>Civics</b>	Chapter 1 Constitutional Design converted Chapter 2 Democracy in the Contemporary World converted Chapter 3 Democratic Rights converted Chapter 4 Electoral Politics converted Chapter 5 Working of Institutions converted Chapter 6 What is Democracy Why Democracy converted
	<b>Economics</b>	Chapter 1 The Story of Village Palampur Chapter 2 People as Resource Chapter 3 Poverty as a Challenge Chapter 4 Food Security in India
	<b>Geography</b>	Chapter 1 India Size and Location Chapter 2 Physical Features of India Chapter 3 Drainage Chapter 4 Climate Chapter 5 Natural Vegetation and Wildlife Chapter 6 Population
	<b>History</b>	Chapter 1 The French Revolution Chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution Chapter 3 Nazism and the Rise of Hitler Chapter 4 Forest Society and Colonialism Chapter 5 Pastoralists in the Modern World
<b>Social Science</b>		
<b>Class 9th</b>		

<b>Class 10th</b>	<b>English</b>	<b>Grammar</b>	Active and Passive Voice Article Writing Avoiding Repetition Collocation
-------------------	----------------	----------------	---

			<p>Comparison Conditionals Connectors Debate Writing Determiners Dialogue Writing Diary Entry Direct and Indirect Speech Email Writing Essay Writing Figures of Speech Finites Non finites Participles Formal Letter Writing Homophones and Homonyms Idioms and Phrases Informal Letter Writing Message Writing Modals Nominalisation Notice Writing Paragraph Writing Parts of Speech Phrases and Clauses Precis Writing Prefixes and Suffixes Prepositions Question Formation Reading Comprehension Relatives Report Writing Speech Writing Story Writing Subject Verb Agreement Synonyms and Antonyms Synthesis of Sentences Tenses Transformation of Sentences Types of sentences Form Types of sentences Meaning Word forms</p>
	<p><b>First Flight</b> Poetry</p>		<p>A Letter To God Nelson Mandela: Long Walk To Freedom Two Stories About Flying From The Diary Of Anne Frank The Hundred Dresses - 1 The Hundred Dresses - 2 Glimpses of India Mijbil The Otter Madam Rides The Bus The Sermon At Benares</p>
	<p>Prose</p>		<p>The Proposal Dust Of Snow Fire And Ice A Tiger In The Zoo The Ball Poem Amanda! Animals The Trees Fog The Tale Of Custard The Dragon</p>



	<b>Footprints Without</b>	For Anne Gregory How To Tell Wild Animals A Triumph Of Surgery The Thiefs Story The Midnight Visitor A Question Of Trust Footprints Without Feet The Making Of A Scientists The Necklace The Hack Driver Bholi The Book That Saved The Earth
<b>English</b>		
<b>हिन्दी</b>	<b>क्षितिज भाग 2</b> काव्य – खंड	1 पद 2 राम-लक्ष्मण-परशुराम संवाद 3 सवैया और कवित्त 4 आत्मकथ्य 5 उत्साह और अट नहीं रही 6 यह दंतर्हित मुस्कान और फसल 7 छाया मत छना 8 कन्यादान 9 संगतकार
	गदय – खंड	10 नेताजी का चश्मा 11 बालगोबिन भगत 12 लखनवी अंदाज 13 मानवीय करुणा की दिव्या चमक 14 एक कहानी यह भी 15 स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतर्कों का खंडन 16 नौबतखाने में डबादत 17 संस्कृति
	<b>कतिका भाग 2</b>	1 माता का आँचल 2 जॉर्ज पंचम की नाक 3 साना-साना हाथ जोड़ि 4 एही ठैयाँ झलनी हेरानी हो रामा! 5 मैं क्यों लिखता हूँ?
	<b>स्पर्श भाग 2</b> काव्य – खंड	1 साखी 2 पद 3 दोहे 4 मनुष्यता 5 पर्वत प्रदेश में पावस 6 मधुर-मधुर मेरे दीपक जल 7 तोप 8 कर चले हम फिदा 9 आत्मत्राण
	गदय – खंड	10 बडे भाई साहब 11 डायरी का एक पन्ना 12 तर्तारा-वामीरो कथा 13 तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र 14 गिरगिट 15 अब कहाँ दूसरे के दख से दखी होने वाले 16 पतझर में टटी पतियाँ 17 कारतस
	<b>संचयन भाग 2</b>	1 हरिहर काका 2 सपनों के-से दिन 3 टोपी शक्ला
	<b>व्याकरण</b>	काल क्रिया प्रत्यय उपसर्ग अलंकार

		महावारे विराम चिह्न अव्यय वाक्य विशेषण तत्सम-तदभव शब्द व्याख्या शदध वर्तनी समास वाच्य वचन पदबंध रस लिंग विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द
<b>हिन्दी</b> <b>Maths</b>	<b>Maths</b>	Chapter 1 Real Numbers up Chapter 2 Polynomials Chapter 3 Pair of Linear Equations in 2 Variables Chapter 4 Quadratic Equations Chapter 5 Arithmetic Progression Chapter 6 Triangles Chapter 7 Coordinate Geometry Chapter 8 Introduction to Trigonometry Chapter 9 Some Applications of Trigonometry Chapter 10 Circles Chapter 11 Constructions Chapter 12 Areas Related to Circles Chapter 13 Surface Areas and Volumes Chapter 14 Statistics Chapter 15 Probability
<b>Maths</b> <b>Science</b>	<b>Biology</b>	Chapter 1 Life Processes Chapter 2 Control and Coordination Chapter 3 How Do Organisms Reproduce Chapter 4 Heredity and Evolution Chapter 5 Environment Chapter 6 Management of Natural Resources
	<b>Chemistry</b>	Chapter 1 Chemical Reactions and Equations Chapter 2 Acids Bases and Salts Chapter 3 Metals and Non Metals Chapter 4 Carbon and Its Compounds Chapter 5 Periodic Classification of Elements
	<b>Physics</b>	Chapter 1 Light Reflection and Refraction Chapter 2 The Human Eye and The Colourful World Chapter 3 Electricity Chapter 4 Magnetic Effects of Electric Current Chapter 5 Sources of Energy
<b>Science</b> <b>Social Science</b>	<b>Civics</b>	Chapter 1 Power Sharing converted Chapter 2 Federalism converted Chapter 3 Democracy and Diversity converted Chapter 4 Gender Religion and Caste converted Chapter 5 Popular Struggles and Movements converted Chapter 6 Political Parties converted Chapter 7 Outcomes of Democracy converted Chapter 8 Challenges to Democracy converted
	<b>Economics</b>	Chapter 1 Development converted Chapter 2 Sectors of the Indian Economy converted

			Chapter 3 Money Credit converted Chapter 4 Globalisation and the Indian Economy converted Chapter 5 Consumer Rights converted
		<b>Geography</b>	Chapter 1 Resources and Development converted Chapter 2 Forest and Wildlife Resources converted Chapter 3 Water Resources converted Chapter 4 Agriculture converted Chapter 5 Minerals and Energy Resources converted Chapter 6 Manufacturing Industries converted Chapter 7 Lifelines of National Economy converted
		<b>History</b>	Chapter 1 The Rise of Nationalism in Europe converted Chapter 2 Nationalism in India converted Chapter 3 The Making of a Global World converted Chapter 4 The Age of Industrialisation converted Chapter 5 Print Culture and the Modern World converted
	<b>Social Science</b>		
<b>Class 10th</b>			

<b>Class 11th</b>	<b>English</b>	<b>Summary (Hornbil)</b>	The Portrait Of A Lady A Photograph We'Re Not Afraid To Die.. Discovering Tut: The Saga Continues The Laburnum Top Landscape Of The Soul The Voice Of The Rain The Ailing Planet: The Green Movement'S Role The Browning Version Childhood The Adventure Silk Road Father To Son
		<b>Snapshots</b>	The Summer Of The Beautiful White Horse The Address Ranga'S Marriage Albert Einstein At School Mother'S Day The Ghat Of The Only World Birth The Tale Of Melon City
		<b>Reading</b>	<b>Passage</b> Discursive passage Factual passage
		<b>Writing</b>	<b>1. Short Composition</b> Notice Advertisement Invitation Paragraph writing Replies Messages writing Postcard writing Email Writing Biosketch <b>2. Long Composition</b> Formal letter Informal letter Letter to editors Articles Speech Report writing Debate writing

		Poster writing Diary writing Job application Story writing Eassay
	<b>Grammer</b>	Editing Omission Fill in the blanks Re-arranging the words Dialogue complition Do as directed
<b>हिन्दी</b>	<b>आरोह</b> काव्य भाग	1 हम तौ एक एक करि जानां, संतों देखत जग बौराना 2 मेरे तो गिरधर गोपाल दसरो न कोई, पग घँघरू बाधि मीरां नाची 3 पथिक 4 वे आँखें 5 घर की याद 6 चंपा काले-काले अच्छर नहीं चीन्हती 7 गजल 8 हे भूख! मत मचल, हे मेरे जूही के फल जैसे ईश्वर 9 सबसे खतरनाक 10 आओ, मिलकर बचाएँ 11 नमक का दारोगा 12 मियाँ नसीरुददीन 13 अप के साथ ढाई साल 14 विदाई-संभाषण 15 गलता लोहा 16 स्पीति में बारिश 17 रजनी 18 जामून का पेड 19 भारत माता 20 आत्मा का ताप
	गदय भाग	
	<b>वितान</b>	1. भारतीय गायिकाओं में बेजोड -लता मंगेशकर 2. राजस्थान की रजत बूँदें 3. आलो-आँधारि
	<b>व्याकरण</b>	1 अलंकार 2 छन्द 3 शब्द शक्ति 4 शब्द 5 भाषा 6 लोकोक्तियाँ 7 विशेषण 8 क्रिया 9 उपसर्ग 10 तत्सम-तदभव शब्द 11 प्रत्यय 12 पर्यायवाची शब्द 13 विराम चिह्न 14 संवाद लेखन 15 अनच्छेद 16 टिप्पण लेखन 17 डायरी-लेखन 18 तार लेखन 19 निबंध लेखन
<b>Science</b>	<b>Mathematics</b>	Chapter 1 Sets Chapter 2 Relations And Functions Chapter 3 Trigonometric Functions Chapter 4 Principle Of Mathematical Induction Chapter 5 Complex Numbers And Quadratic Equations Chapter 6 Linear Inequalities Chapter 7 Permutations And Combinations

		<p>Chapter 8 Binomial Theorem  Chapter 9 Sequences And Series  Chapter 10 Straight Lines  Chapter 11 Conic Sections  Chapter 12 Introduction To Three Dimensional Geometry  Chapter 13 Limits And Derivatives  Chapter 14 Mathematical Reasoning  Chapter 15 Statistics  Chapter 16 Probability</p>
	<b>Physics</b>	<p>Chapter 1 Physical World  Chapter 2 Units And Measurements  Chapter 3 Motion In A Straight Line  Chapter 4 Motion In A Plane  Chapter 5 Laws Of Motion  Chapter 6 Work, Energy And Power  Chapter 7 System Of Particles And Rotational Motion  Chapter 8 Gravitation  Chapter 9 Mechanical Properties Of Solids  Chapter 10 Mechanical Properties Of Fluids  Chapter 11 Thermal Properties Of Matter  Chapter 12 Thermodynamics  Chapter 13 Kinetic Theory  Chapter 14 Oscillations  Chapter 15 Waves</p>
	<b>Chemistry</b>	<p>Chapter 1 Some Basic Concepts Of Chemistry  Chapter 2 Structure Of Atom  Chapter 3 Classification Of Elements And Periodicity In Properties  Chapter 4 Chemical Bonding And Molecular Structure  Chapter 5 States Of Matter  Chapter 6 Thermodynamics  Chapter 7 Equilibrium  Chapter 8 Redox Reactions  Chapter 9 Hydrogen  Chapter 10 The S-Block Elements  Chapter 11 The P-Block Elements  Chapter 12 Organic Chemistry – Some Basic Principles And Techniques  Chapter 13 Hydrocarbons  Chapter 14 Environmental Chemistry</p>
	<b>Biology</b>	<p>Chapter 1 The Living World  Chapter 2 Biological Classification  Chapter 3 Plant Kingdom  Chapter 4 Animal Kingdom  Chapter 5 Morphology Of Flowering Plants  Chapter 6 Anatomy Of Flowering Plants  Chapter 7 Structural Organisation In Animals  Chapter 8 Cell : The Unit Of Life  Chapter 9 Biomolecules  Chapter 10 Cell Cycle And Cell Division  Chapter 11 Transport In Plants  Chapter 12 Mineral Nutrition  Chapter 13 Photosynthesis In Higher Plants  Chapter 14 Respiration In Plants  Chapter 15 Plant Growth And Development  Chapter 16 Digestion And Absorption  Chapter 17 Breathing And Exchange Of Gases  Chapter 18 Body Fluids And Circulation  Chapter 19 Excretory Products And Their Elimination  Chapter 20 Locomotion And Movement  Chapter 21 Neural Control And Coordination  Chapter 22 Chemical Coordination And Integration</p>

	<b>Physical Education</b>	Chapter 1 Changing Trends & Careers In Physical Education Chapter 2 Olympic Movement Chapter 3 Physical Fitness, Wellness & Lifestyle Chapter 4 Physical Education And Sports For Differently Abled Chapter 5 Yoga Chapter 6 Physical Activity And Leadership Training Chapter 7 Test, Measurement And Evaluation In Sports Chapter 8 Fundamentals Of Anatomy, Physiology And Kinesiology In Sports Chapter 9 Psychology And Sports Chapter 10 Training And Doping In Sports
<b>Science</b>		
<b>Commerce</b>	<b>Accountancy</b>	Chapter 1 Introduction To Accounting Chapter 2 Theory Base Of Accounting Chapter 3 Recording Of Transactions - I Chapter 4 Recording Of Transactions - II Chapter 5 Bank Reconciliation Statement Chapter 6 Trial Balance And Rectification Of Errors Chapter 7 Depreciation, Provisions And Reserves Chapter 8 Bill Of Exchange Chapter 9 Financial Statements - I Chapter 10 Financial Statements - II Chapter 11 Accounts From Incomplete Records
	<b>Business Studies</b>	Chapter 1 Business, Trade And Commerce Chapter 2 Forms Of Business Organisation Chapter 3 Private, Public And Global Enterprises Chapter 4 Business Services Chapter 5 Emerging Modes Of Business Chapter 6 Social Responsibilities Of Business And Business Ethics Chapter 7 Formation Of A Company Chapter 8 Sources Of Business Finance Chapter 9 Small Business Chapter 10 Internal Trade Chapter 11 International Business
	<b>Economics</b> Micro	Chapter 1 Introduction To Micro-Economic Chapter 2 Theory Of Consumer Behaviour Chapter 3 Production And Costs Chapter 4 The Theory Of The Firm Under Perfect Competition Chapter 5 Market Equilibrium Chapter 6 Non-Competitive Markets
	Statistics	Chapter 1 Introduction To Statistics Chapter 2 Collection Of Data Chapter 3 Organisation Of Data Chapter 4 Presentation Of Data Chapter 5 Measures Of Central Tendency Chapter 6 Measures Of Dispersion Chapter 7 Correlation Chapter 8 Index Number
	<b>Entrepreneurship</b>	Chapter 1 Entrepreneurship: Concept And Functions Chapter 2 An Entrepreneur Chapter 3 Entrepreneurial Journey Chapter 4 Entrepreneurship As Innovation And Problem Solving Chapter 5 Concept Of Market Chapter 6 Business Finance And Arithmetic Chapter 7 Resource Mobilization
	Commerce	
<b>Class 11th</b>		
<b>Class 12th</b>	<b>English</b>	<b>Summary (Flamingo)</b> The Last Lesson Lost Spring

		<p>Deep Water The Rattrap Indigo Poets And Pancakes The Interview (Part 1 &amp; 2) Going Places My Mother At Sixty - Six An Elementary School Classroom In A Slum Keeping Quiet A Thing Of Beauty A Road Side Stand Aunt Jennifers Tiger</p>
	<b>Vistas</b>	<p>The Third Level The Tiger King Journey To The End Of The Earth The Enemy Should Wizard Hit Mommy On The Face Of It Evans Tries An O-Level Memories Of Childhood 1. The Cutting Of My Long Ha</p>
	<b>Reading</b>	<p><b>Passage</b> Discursive passage Factual passage</p>
	<b>Writing</b>	<p><b>1. Short Composition</b> Notice Advertisement Invitation Paragraph writing Replies Messages writing Postcard writing Email Writing Biosketch <b>2. Long Composition</b> Formal letter Informal letter Letter to editors Articles Speech Report writing Debate writting Poster writting Diary writting Job application Story writting Eassay</p>
<b>हिन्दी</b>	<p><b>आरोह</b> काव्य भाग</p> <p><b>गदय भाग</b></p>	<p>1 आत्म-परिचय, एक गीत 2 पतंग 3 कविता के बहाने, बात सीधी थी पर 4 कैमरे में बंद अपाहिज 5 सहर्ष स्वीकारा है 6 उषा 7 बादल राग 8 कवितावली (उत्तर कांड से), लक्ष्मण-मच्छ और राम का विलाप 9 रुबाइयाँ, गजल 10 छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख 11 भक्तिन 12 बाजार दर्शन 13 काले मेघा पानी दे 14 पहलवान की ढोलक</p>

		<p>15 चार्ली चैप्लिन यानी हम सब  16 नमक  17 शिरीष के फल  18 श्रम-विभाजन और जाति-प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज  1 सिल्वर वैडिंग  2 जड़  3 अतीत में दबे पाँव  4 डायरी के पन्ने</p>
	<b>व्याकरण</b>	<p>1 अलंकार  2 छन्द  3 शब्द शक्ति  4 शब्द  5 भाषा  6 लोकोक्तियाँ  7 विशेषण  8 क्रिया  9 उपसर्ग  10 तत्सम-तदभव शब्द  11 प्रत्यय  12 पर्यायवाची शब्द  13 विराम चिह्न  14 संवाद लेखन  15 अनच्छेद  16 टिप्पण लेखन  17 डायरी-लेखन  18 तार लेखन  19 निबंध लेखन</p>
<b>Science</b>	<b>Mathematics</b>	<p>Chapter 1 Relations And Functions  Chapter 2 Inverse Trigonometric Functions  Chapter 3 Matrices  Chapter 4 Determinants  Chapter 5 Continuity And Differentiability  Chapter 6 Application Of Derivatives  Chapter 7 Integrals  Chapter 8 Application Of Integrals  Chapter 9 Differential Equations  Chapter 10 Vector Algebra  Chapter 11 Three Dimensional Geometry  Chapter 12 Linear Programming  Chapter 13 Probability</p>
	<b>Physics</b>	<p>Chapter 1 Electric Charges And Fields  Chapter 2 Electrostatic Potential And Capacitance  Chapter 3 Current Electricity  Chapter 4 Moving Charges And Magnetism  Chapter 5 Magnetism And Matter  Chapter 6 Electromagnetic Induction  Chapter 7 Alternating Current  Chapter 8 Electromagnetic Waves  Chapter 9 Ray Optics And Optical Instruments  Chapter 10 Wave Optics  Chapter 11 Dual Nature Of Radiation And Matter  Chapter 12 Atoms  Chapter 13 Nuclei  Chapter 14 Semiconductor Electronics: Materials, Devices And Simple Circuits</p>
	<b>Chemistry</b>	<p>Chapter 1 The Solid State  Chapter 2 Solutions  Chapter 3 Electrochemistry  Chapter 4 Chemical Kinetics  Chapter 5 Surface Chemistry  Chapter 6 General Principles And Processes Of Isolation Of Elements</p>



		<p>Chapter 7 The P- Block Elements</p> <p>Chapter 8 The D And F Block Elements</p> <p>Chapter 9 Coordination Compounds</p> <p>Chapter 10 Haloalkanes And Haloarenes</p> <p>Chapter 11 Alcohols, Phenols And Ethers</p> <p>Chapter 12 Aldehydes, Ketones And Carboxylic Acids</p> <p>Chapter 13 Amines</p> <p>Chapter 14 Biomolecules</p> <p>Chapter 15 Polymers</p> <p>Chapter 16 Chemistry In Everyday Life</p>
	<b>Biology</b>	<p>Chapter 1 Reproduction In Organisms</p> <p>Chapter 2 Sexual Reproduction In Flowering Plants</p> <p>Chapter 3 Human Reproduction</p> <p>Chapter 4 Reproductive Health</p> <p>Chapter 5 Principles Of Inheritance And Variation</p> <p>Chapter 6 Molecular Basis Of Inheritance</p> <p>Chapter 7 Evolution</p> <p>Chapter 8 Human Health And Disease</p> <p>Chapter 9 Strategies For Enhancement In Food Production</p> <p>Chapter 10 Microbes In Human Welfare</p> <p>Chapter 11 Biotechnology : Principal And Processes</p> <p>Chapter 12 Biotechnology And Its Applications</p> <p>Chapter 13 Organisms And Populations</p> <p>Chapter 14 Ecosystem</p> <p>Chapter 15 Biodiversity And Conservation</p> <p>Chapter 16 Environmental Issues</p>
	<b>Physical Education</b>	<p>Chapter 1 Planning In Sports</p> <p>Chapter 2 Sports &amp; Nutrition</p> <p>Chapter 3 Yoga And Lifestyles</p> <p>Chapter 4 Children &amp; Women Sports</p> <p>Chapter 5 Test &amp; Measurement In Sports</p> <p>Chapter 6 Physiology &amp; Injuries In Sports</p> <p>Chapter 7 Biomechanics &amp; Sports</p> <p>Chapter 8 Psychology &amp; Sports</p> <p>Chapter 9 Training In Sports</p>
<b>Science</b>		
<b>Commerce</b>	<b>Accountancy</b>	<p>Chapter 1 Accounting For Not-For-Profit Organisation</p> <p>Chapter 2 Accounting For Partnership : Basic Concepts</p> <p>Chapter 3 Reconstitution of a Partnership Firm – Admission of a partner</p> <p>Chapter 4 Reconstitution of a Partnership Firm – Retirement /Death of a Partner</p> <p>Chapter 5 Dissolution Of Partnership Firm</p> <p>Chapter 6 Accounting For Share Capital</p> <p>Chapter 7 Issue And Redemption Of Debentures</p> <p>Chapter 8 Financial Statements Of A Company</p> <p>Chapter 9 Analysis Of Financial Statements</p> <p>Chapter 10 Accounting Ratios</p> <p>Chapter 11 Cash Flow Statment</p>
	<b>Business Studies</b>	<p>Chapter 1 Nature And Significance Of Management</p> <p>Chapter 2 Principles Of Management</p> <p>Chapter 3 Business Environment</p> <p>Chapter 4 Planning</p> <p>Chapter 5 Organising</p> <p>Chapter 6 Staffing</p> <p>Chapter 7 Directing</p> <p>Chapter 8 Controlling</p> <p>Chapter 9 Business Finance</p> <p>Chapter 10 Financial Markets</p> <p>Chapter 11 Marketing</p> <p>Chapter 12 Consumer Protection</p>

	<b>Economics</b>	Chapter 1 Introduction To Macro-Economic Chapter 2 National Income Accounting Chapter 3 Money & Banking Chapter 4 Income Determination Chapter 5 The Government Budget: Function And Scope Chapter 6 Open Economy Macroeconomics
	Indian Economic Development	Chapter 1 Indian Economy On The Eve Of Independence Chapter 2 Indian Economy 1950-1990 Chapter 3 Liberalisation, Privatisation And Globalisation : An Appraisal Chapter 4 Poverty Chapter 5 Human Capital Formation In India Chapter 6 Rural Development Chapter 7 Employment: Growth, Informalisation And Other Issues Chapter 8 Infrastructure Chapter 9 Environment And Sustainable Development Chapter 10 Comparative Development Experiences Of India And Its Neighbours
	<b>Entrepreneurship</b>	Chapter 1 Entrepreneurial Opportunity Chapter 2 Enterprise Planning Chapter 3 Enterprise Marketing Chapter 4 Enterprise Growth Strategies Chapter 5 Business Arithmetic Chapter 6 Resource Mobilization
	<b>Commerce</b>	
<b>Class 12th</b>		